

SET – 3

Series : GBM/C

कोड नं. 29/3  
Code No.

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 7 हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 14 प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जायेगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।

हिन्दी (ऐच्छिक)

HINDI (Elective)

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 100

Maximum Marks : 100

सामान्य निर्देश :

- इस प्रश्न-पत्र में 14 प्रश्न हैं।
- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर लिखें।

29/3

1

[P.T.O.]



## खण्ड – 'क'

1. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

15

लोक-कलाएँ जीवन के अंग-प्रत्यंग से जुड़ी रहती थीं। कठिन शारीरिक श्रम के काम संगीत से हलके किये जाते थे। पेड़ काटना, नाव चलाना, बोझ खींचना, चक्की पीसना आदि किसी-न-किसी प्रकार के संगीत से जुड़े होते थे। हर ऋतु के अपने गीत और नृत्य होते थे। जन्म, विवाह आदि के अवसर नृत्य और गायन के अवसर तो होते ही थे, उनसे चित्रांकन, मिट्टी की कलाएँ, काष्ठ शिल्प आदि भी संबद्ध होते थे। आर्थिक क्रियाओं में भी किसी-न-किसी तरह जाने-अनजाने कलाएँ प्रवेश पा जाती थीं। धर्म और जादू-टोने से भी कलाएँ असंपृक्त नहीं होती थीं। सच तो यह है कि धार्मिक क्रियाओं और लोक-कलाओं में सावयवी संबंध था। यह कहना शायद उचित न हो कि शुद्ध सौंदर्यवादी दृष्टि से कलात्मक सृजन होता ही नहीं था, परन्तु यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कलाओं का उपयोगवादी पक्ष किसी भी दृष्टि से गौण नहीं था। आद्यकला-सृष्टियों के कई रूपों के संबंध में आज हम केवल अनुमान ही कर सकते हैं, उनके व्यवहारवादी पक्षों पर प्रामाणिक टिप्पणी करना संभव नहीं है। अल्जीरियाई सहारा मरुस्थल के मध्य आश्चर्यजनक चित्रकला के नमूने अवशिष्ट हैं, जो कठिन यात्रा के बावजूद हर वर्ष हजारों दर्शकों को अपनी ओर खींचते हैं। आदिमानव ने इन चित्रों की रचना क्यों की? आज इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सकता। ये चित्र सौंदर्यबोध को तो प्रमाणित करते हैं, पर शायद उनके साथ कोई धार्मिक या आर्थिक कार्य भी जुड़े हों। यही प्रश्न भोपाल के समीप भीमबेटका के चित्रों को देखकर उठता है। आदिमानव ने यूरोप में 'विलेनडार्फ की वीनस' की प्रसिद्ध मूर्ति क्यों गढ़ी? सिंधु सभ्यता से जुड़ी चित्रकला और मूर्तिकला के पीछे मूल भावना क्या थी? ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका सीधा उत्तर देना संभव नहीं है किंतु निश्चित है कि ये धरोहरें मानव मन की और उसकी संस्कृति की विकास यात्रा को समझने में सहायक हो सकती हैं। संस्कृति-विश्लेषण की नयी विधाओं ने इस सामग्री का उपयोग कर जीवनदर्शन, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक प्राथमिकताओं आदि पर गंभीर शोध किया है, जो संस्कृतियों के बाह्यरूप मात्र को देखकर संभव नहीं होता। ये कलाएँ सौंदर्यबोध की अभिव्यक्ति करती थीं और उनके द्वारा व्यक्तियों और समूहों को सृजनात्मक आनंद भी प्राप्त होता था।



- (क) उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए । (1)
- (ख) कैसे कह सकते हैं कि श्रमसाध्य कार्य भी लोक संगीत से जुड़े रहते थे ? (2)
- (ग) दो बिंदुओं का उल्लेख कर पुष्टि कीजिए कि लोक-कलाएँ जीवन के अंग-प्रत्यंग से जुड़ी होती थी ? (2)
- (घ) अल्जीरिया और भीमबेटका का उल्लेख क्यों हुआ है ? (2)
- (ङ) लोक-कलाओं की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए । (2)
- (च) कुछ प्रश्नों का सीधा उत्तर देना संभव क्यों नहीं है ? (2)
- (छ) लोककलाओं की प्राचीन धरोहरें किन बातों को समझने में सहायक हो सकती हैं ? (2)
- (ज) कैसे कह सकते हैं कि धार्मिक क्रियाओं और लोककलाओं में परस्पर गहरा संबंध था ? (2)

2. निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1 × 5 = 5

प्रातः बेला

टटके सूरज की ओर देखे कितने दिन बीत गए

नहीं देख पाया पेड़ों के पीछे

उसे छिप-छिपकर उगते हुए

नहीं सुन पाया भोर होने से पहले चिड़ियों का कलरव

नहीं पी पाया दुपहरी की बेला

आम के बगीचे की झुर-झुर बहती शीतल बयार ।

आज भी जाता होगा

किसानों, औरतों, बच्चों-बेटियों का जत्था

होते ही उजास गेहूँ काटने

घर के पिछवाड़े डालियों पत्तियों में झिलमिलाता

डूबता सूरज बहुत याद आता है ।

अपने चटक रंगों को लिए गाँव के बगीचे में

झरते हुए पीले-पीले पत्ते कब देखूँगा ?

उसकी डालियों शाखाओं पर

आत्मा को तृप्त कर देने वाली

नई-नई कोपलें कब देखूँगा ?



- (क) उगते सूर्य के बारे में कवि ने क्या कल्पना की है ?
- (ख) गाँव में सुबह होने वाली हलचल का वर्णन कीजिए ।
- (ग) कवि के मन में डूबते सूरज का कैसा चित्र है ?
- (घ) गाँव के बगीचे में दुपहरी और पतझड़ की कवि मन की स्मृतियाँ अपने शब्दों में लिखिए ।
- (ङ) भाव स्पष्ट कीजिए :

आत्मा को तृप्त कर देने वाली

नई-नई कोपलें कब देखूँगा ?

### खण्ड – 'ख'

3. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए :

- (क) पुस्तक की आत्मकथा
- (ख) लोकतंत्र और मीडिया
- (ग) भारत की युवाशक्ति
- (घ) खेलों में हम क्यों पिछड़े हैं

4. आपका युवक मंगल दल मुहल्ले के एक उद्यान का रखरखाव स्वयं करना चाहता है । अपनी योजना का संक्षिप्त विवरण देते हुए ज़िला उद्यान अधिकारी को अनुमति प्रदान करने हेतु पत्र लिखिए ।

अथवा

भारतीय समाज में लिंग के आधार पर व्यवहार में भेदभाव करने की समस्या पर किसी समाचार-पत्र के संपादक को पत्र लिखिए और समाधान का एक उपाय भी सुझाइए ।



5. निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर लिखिए :

1 × 5 = 5

- (क) 'समाचार' शब्द को परिभाषित कीजिए ।  
(ख) प्रिंट मीडिया का महत्त्व दो बिंदुओं में समझाइए ।  
(ग) मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंभा क्यों कहा जाता है ?  
(घ) संपादक के दो मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए ।  
(ङ) खोजी पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं ?

6. 'भारतीय सेना' अथवा 'परीक्षाओं का मौसम' विषय पर एक आलेख लिखिए ।

5

### खण्ड – 'ग'

7. निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए :

धीरे-धीरे होने की सामूहिक लय  
दृढ़ता से बाँधे है समूचे शहर को  
इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है  
कि हिलता नहीं है कुछ भी  
कि जो चीज जहाँ थी  
वहीं पर रखी है  
कि गंगा वहीं है  
वहीं पर बँधी है नाव  
कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊँ  
सैकड़ों बरस से ।

8. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर संक्षेप में दीजिए :

3 + 3 = 6

- (क) 'दीप अकेला' का प्रतीकार्थ समझाते हुए लिखिए कि व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है ?  
(ख) युधिष्ठिर जैसा संकल्प का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए सत्य और संकल्प का अंतःसंबंध स्पष्ट कीजिए ।  
(ग) "महीं सकल अनरथ कर मूला" भरत के इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए ।



9. निम्नलिखित में से किन्हीं दो काव्यांशों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए :

3 + 3 = 6

(क) टूटहिं बुंद परहिं जस ओला । बिरह पवन होइ मारै झोला ॥

केहिक सिंगार को पहिर पटोरा । जियँ नहिं हार रही होइ डोरा ॥

(ख) ऊँचे तरुवर से गिरे

बड़े-बड़े पियराए पत्ते

कोई छह बजे सुबह जैसे गरम पानी से नहाई हो

खिली हुई हवा आई, फिरकी-सी आई, चली गई ।

(ग) हेम कुंभले उषा सवेरे

आती ढुलकाती सुख मेरे

मदिर ऊँघते रहते जब

जगकर रजनी भर तारा

10. निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए :

6

एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधिनिष्ठ महादेव को पुष्पस्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं और एक बार नीचे की ओर अपनी पाषाण भेदी जड़ों को दबाकर गिरिनंदिनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है । जीना चाहते हो ? कठोर पाषाण को भेदकर, पाताल की छाती चीरकर अपना भोग्य संग्रह करो ; वायुमंडल को चूसकर, झंझा-तूफ़ान को रगड़कर अपना प्राप्य वसूल लों; आकाश को चूमकर अवकाश की लहरो में झूमकर उल्लास खींच लो ।

11. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर लिखिए :

4 + 4 = 8

(क) 'मनोकामना की गाँठ' को 'दूसरा देवदास' कहानी में अद्भुत, अनूठी क्यों कहा गया है ? पारो और संभव की मनोदशा के संदर्भ में समझाइए ।

(ख) "मैं जहाँ जाता हूँ, छूँछे हाथ नहीं लौटता" 'कच्चा चिट्ठा' से उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए ।

(ग) 'सुमिरिनी के मनके' के आधार पर तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त मान्यताओं पर टिप्पणी कीजिए ।



12. रामचंद्र शुक्ल अथवा भीष्म साहनी के जीवन और रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए । 6

अथवा

‘विद्यापति’ अथवा ‘निराला’ के जीवन और रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी कविताओं की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए ।

खण्ड – ‘घ’

13. “उसका मायावी कद अंदर ज़मीन में कितनी गहराई तक गया था और आसमानों में कितनी ऊँचाई तक ।” भूपसिंह के बारे में उक्त कथन के आलोक में उसके जीवन के प्रेरणादायक मूल्यों की सोदाहरण चर्चा कीजिए । 5
14. (क) “तो हम सौ लाख बार बनाएँगे ।” इस कथन के संदर्भ में ‘सूरदास’ का चरित्र चित्रण कीजिए । 5
- (ख) ‘बिस्कोहर की माटी’ में ऐसा क्या था कि लेखक को वह भुलाए नहीं भूलती ? उदाहारण सहित स्पष्ट कीजिए । 5





**collegedunia.com**  
India's largest Student Review Platform

